

# दोराहा में नकली पतंजलि का तेल, हार्पिक व टाटा नमक बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, पुलिस ने दो आरोपितों को किया काबू



संसू, दोराहा। लुधियाना के बाद अब दोराहा में ब्रांडेड कंपनियों के नकली उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मौके से पतंजलि के तेल, टाटा नमक और हार्पिक जैसे उत्पाद बरामद किए हैं। मौके से दो आरोपितों को पुलिस ने काबू किया है। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले लुधियाना से नकली टाटा नमक पैक करने वाले व्यापारियों को हिरासत में लिया गया था। डीएसपी पायल देवेन्द्र अत्री ने बताया कि वह दोराहा थाना के एसएचओ लखबीर सिंह के साथ बेअंत सिंह चौक में खड़े थे।

इसी दौरान उनके पास रजिंदर सिंह (फील्ड अफसर स्पीड सर्च एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड) ने आकर सूचना दी कि पास के गांव में गणेश किराना स्टोर पर टाटा कंपनी का नकली नमक खुलेआम बिक रहा है। वहीं एक अन्य आरोपित विककी पतंजलि का सरसों का तेल, टाटा नमक व अन्य नकली सामान बनाकर पैक कर रहा है। अगर मौके पर जाकर छापा मारा जाए तो भारी मात्रा में नकली सामान बरामद हो सकता है। पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर छापामारी की गई तो पुलिस को गणेश किराना स्टोर से 154 किलो नकली टाटा नमक बरामद हुआ। पुलिस ने दुकान मालिक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया।

वहीं पुलिस द्वारा विककी के कमरे में छापामारी की तो वहां से पुलिस को नकली हार्पिक की 800 बोतलें, 503 किलो नकली टाटा नमक, एक लीटर वाली पतंजलि सरसों के तेल की नकली 100 बोतलें और आधा लीटर की 44 बोतलें बरामद हुईं। इसके अलावा पुलिस को मौके पर नकली नमक पैक करने वाली मशीन भी बरामद हुई। पुलिस को मौके पर तलाशी के दौरान भिन्न-भिन्न ब्रांडेड कंपनियों के रैपर बोतलें व अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों आरोपितों को काबू कर मामला दर्ज कर लिया और पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है।

Source: <https://www.jagran.com/punjab/ludhiana-fake-patanjali-oil-harpic-and-tata-salt-factory-exposed-in-doraha-in-ludhiana-22789388.html>